



दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में संचालित किये जा रहे ***गुड मॉर्निंग महोबा*** कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 22.01.2021 को जनपदीय पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कहकर लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे बड़े/बुजुर्ग/महिलाएँ/बच्चों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों द्वारा छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि **'मित्र पुलिस'** के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड के रिहर्सल का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये...।

आज दिनांक 22.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा शुक्रवार की परेड में पुलिस लाइन जाकर परेड ग्राउण्ड में परेड की सलामी ली गयी व परेड का निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया गया। परेड में क्षेत्राधिकारी लाइन श्री रामप्रवेश राय द्वारा परेड कमाण्डर के रूप में समस्त परेड के साथ पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गयी। परेड में टोलीवार प्रतिभाग किया जा रहा है जिसमें जनपदीय सिविल पुलिस, महिला पुलिस की टोलियां हैं इसके अतिरिक्त परेड में मोटरसाइकिल दस्ता, पीआरवी वाहन, बज्र वाहन, रेडियो शाखा, फील्ड यूनिट, फायर ब्रिगेड की गाडियों द्वारा भाग लिया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहर्सल के दौरान आने वाली कमियों को सुधारने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित किया गया जिसमें प्रतिसार निरीक्षक महोबा श्री सैनजीत सिंह को परेड ग्राउण्ड की समुचित साज सज्जा व सफाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही 26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) के अवसर पर आने वाले सम्मानित आगन्तुकों के बैठने आदि की व्यवस्था व होने वाले सांस्कृतिक समारोह की व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया एव परेड को मोहक बनाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन/कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, SP-Pro उ0नि0 राजेश मौर्य, प्रभारी परिवहन शाखा श्री ललित नारायण द्विवेदी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे जिले के बारन्टी,बांछित,टाँप टैन व इनामिया अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में आज दिनांक 22/01/2021 को प्रभारी थाना वरिष्ठ उ.नि. रामप्रताप यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखविर खास की सूचना पर मु.स. 157/16 व अ.स. 678/10 थाना अजनर न्यायालय **A.C.J.M MAHOBA** से सम्बन्धित निर्गत वारण्ट के वारण्टी अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ प्रकाश राजपूत पुत्र मनका राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जिला महोबा को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

रामप्रसाद उर्फ प्रकाश राजपूत पुत्र मनका राजपूत निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.वरिष्ठ उ.नि. श्री रामप्रताप यादव थाना अजनर जिला महोबा।
- 2.का. कुँवरपाल थाना अजनर जनपद महोबा।



दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे जिले के बारन्टी, बांछित, टॉप टैन व इनामिया अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में आज दिनांक 22/01/2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम जिसमें **SI** हेमराज सिंह मय हमराह कां० अनुज कुमार के द्वारा बस स्टैण्ड कस्बा श्रीनगर से एक नफर वारण्टी अभियुक्त प्यारेलाल पुत्र हल्के नि.ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जिला महोबा सम्बन्धित वाद सं.38/17 धारा 446 सीआरपीसी को गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० हेमराज सिंह
कां० अनुज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त:-

प्यारेलाल पुत्र हल्के नि.ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जिला महोबा ।



दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाडी पुलिस ने अवैध रूप से खनन परिवहन में लिप्त अभियुक्त को गिट्टी लदे ट्रक सहित किया गिरफ्तार...



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड

अभियान के क्रम में थाना पनवाडी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में खनन विभाग के अधि०/कर्म०गण के साथ पुलिस विभाग के उ०नि० श्री श्रीपाल सिंह व का० शत्रुघन भदौरिया के सहयोग से अवैध रूप से खनन (गिट्टी) ट्रक न० **UP91 T7252** द्वारा परिवहन करते समय अभियुक्त शोभाराम पुत्र रामगुलाम उम्र 26 वर्ष नि०ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार कर मु.अ.स 20/2021 धारा 379/411 **IPC** व 4/21 खान एवं खनिज अधि० बनाम अभियुक्त शोभाराम उपरोक्त एवं वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात एवं केशर मालिक मेसर्स मारकण्डेश्वर ग्रेनाइट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. खान निरीक्षक श्री ईश्वरचन्द्र महोबा
2. उ०नि० श्रीपाल सिंह
3. का० शत्रुघन सिंह भदौरिया थाना पनवाडी महोबा।
4. हो०गा० रामबिहारी हमराह खान अधि० महोबा।
5. होगा. हरिचरण हमराह खान अधि० महोबा।

अभियुक्त का नाम पता:-

1. शोभाराम पुत्र रामगुलाम उम्र 26 वर्ष नि०ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा
- बरामदगी -**
ट्रक न० **UP91T7252** अवैध खनन (गिट्टी) लदी हुयी।



दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” टीम द्वारा स्कूली छात्राओं को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया जागरूक...।

“टीम द्वारा हेल्पलाइन नम्बरों से सम्बन्धित पम्पलेट्स किये गये वितरित”

उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किये जाने हेतु चलाये जा रहे महाभियान *मिशनशक्ति* के तहत आज दिनांक 22.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे “मिशन शक्ति” महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा राजकीय बालिका हाईस्कूल, सिजहरी महोबा में आयोजित की गयी जहां पर उपस्थित स्कूली छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें हेल्पलाइन नम्बरों- वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108 एवं सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये हेल्पलाइन नम्बरों से सम्बन्धित पम्पलेट्स वितरित किये गये। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई।





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने थाना खन्ना का वार्षिक निरीक्षण कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के दिये निर्देश

आज दिनांक 22.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना खन्ना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले सलामी गार्ड से सलामी ली गयी उसके पश्चात औचक निरीक्षण के दौरान आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुये थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिये। तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसमें रजि0नं0-4 व 8 तथा फलाई शीट, भूमि-विवाद रजि0, महिला उत्पीड़न रजि0, एससी/एसटी उत्पीड़न रजि0, माल रजि0 सहित आदि रजिस्ट्रो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में भोजनालय, बैरक, अधिकारी/कर्मचारी आवास एवं थाना परिसर का निरीक्षण करते हुये मिशन शक्ति अभियान के तहत संचालित महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई, जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थानास्तर पर क्राइम की समीक्षा की गई है जिसमें कुछ गम्भीर मामलों में वांछित जो प्रीवेंटिव कार्रवाई हैं उसको बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया जिसमें थाना क्षेत्र के अवैध कारोबारियों व असमाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखकर उनके विरुद्ध अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी।

इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री विनोद कुमार, प्र0नि0 थाना खन्ना श्री शिवआसरे, पीआरओ राजेश मौर्य व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस द्वारा हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते

03 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार



आज दिनांक 22.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने ग्राम बपरेता से 03 नफर

अभियुक्त 1. चन्द्रनारायण पुत्र केशवदास राजपूत उम्र 28 वर्ष 2. पवन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र राजपूत उम्र 28 वर्ष 3. जगदेव कुशवाहा पुत्र चन्द्रभान उम्र 26 वर्ष, समस्त नि0गण ग्राम बपरेता थाना चरखारी जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मालफड 1350/-रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते व जामा तलाशी 370/-रु0 बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 23/2021 धारा 13 G. ACT अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. चन्द्रनारायण पुत्र केशवदास राजपूत उम्र 28 वर्ष
2. पवन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र राजपूत उम्र 28 वर्ष
3. जगदेव कुशवाहा पुत्र चन्द्रभान उम्र 26 वर्ष
समस्त नि0गण ग्राम बपरेता थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. शिवरतन गुप्ता
2. हे.का. कृष्णपाल सिंह
3. का. अरविन्द कुमार पाल
4. का. हिमांशू पाल



दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कबरई का किया गया त्रैमासिक निरीक्षण



आज दिनांक 22.01.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह द्वारा थाना कबरई का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम गार्ड द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात सीओ सिटी द्वारा थाना कार्यालय के अभिलेखों- जिसमें चुनाव रजि०, रजि०नं०-4 व 8 तथा भूमि-विवाद रजि०, महिला उत्पीडन रजि०, सहित आदि रजिस्टरो को चेक किया गया तथा कार्यालय के साफ-सफाई हेतु हे०मु० कबरई को निर्देशित किया गया। माल निस्तारण हेतु हे०मु० कबरई को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्र०नि० कबरई को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, बैरक, परिसर में स्थित आवास का निरीक्षण करते हुये सफाई हेतु प्र०नि० कबरई को निर्देशित किया गया। “मिशन शक्ति” अभियान के तहत संचालित महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना क्षेत्र में प्रभावी गस्त करने व अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने हेतु प्र०नि० कबरई को निर्देशित किया गया।





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ

पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं यातायात नियमों के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा किये गये ई-चालान



आज दिनांक 22.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में सीओ कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय द्वारा मय कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ कस्बे के मुख्य बाजार, बस-स्टैंड आदि जगहों पर गस्त किया गया। गस्त के दौरान दुकानदारों/आमजन से

वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना गया। जनपद के सभी थानों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गयी। पैदल गस्त के दौरान संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की चेकिंग की गई। इसके साथ ही आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में बार्डर के थानों द्वारा बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। इसके साथ ही **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **30 व्यक्तियों से 4300/-रु० जुर्माना व 57 ई-चालान किये गये।**





दिनांक:- 22.01.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



GOOD MORNING Mahoba



महोबा पुलिस



दिनांक 22.01.2021

गुड मॉर्निंग टीमों क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि 'मित्र पुलिस' के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।